



**PROFESSIONAL EXAMINATION
BOARD
Middle School Teacher Eligibility
Test - 2018
22nd Feb 2019 09:30AM**

Topic:- Child Development & Pedagogy (CDP)

1) The distribution of intelligence is not _____ among all human beings./ सभी मनुष्यों के बीच, बुद्धि का वितरण _____ नहीं है।

1. Moderate / मध्यम
2. Equal / समान
3. Appropriate / उपयुक्त
4. Same / एक जैसा

Correct Answer :-

- Equal / समान

2) The primary focus of a formative Assessment for learning should be: / अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आंकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए:

1. checking the classroom presence of the child / बच्चे की कक्षा में उपस्थिति की जाँच करना
2. checking memorizing skills / स्मरण शक्ति कौशल की जांच करना
3. help in improving writing skills / लेखन कला को सुधारने में मदद करना
4. understanding the gaps in learning / अधिगम में अंतराल को समझना

Correct Answer :-

- understanding the gaps in learning / अधिगम में अंतराल को समझना

3) Mohan is a 13-year-old 9th class student with a mental age of 16. What

type of child is he based on his IQ scores? / मोहन 13 वर्षीय नौवीं कक्षा का छात्र है, जिसकी मानसिक आयु 16 है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है?

1. Imbecile / मूर्ख या मंद
2. Genius / प्रतिभावान
3. Above average / औसत से ऊपर
4. Superior / वरिष्ठ

Correct Answer :-

- Superior / वरिष्ठ

4) What is the Freudian stage of psychosexual development in which children are toilet trained known as? / मनोलैंगिक विकास की फ्रायडियन अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को शौच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है?

1. Latency / अव्यवक्तावस्था (लैटेंसी)
2. Phallic / लिंग प्रधानावस्था (फेल्लिक)
3. Oral / मुखावस्था (ओरल)
4. Anal / गुदावस्था (एनल)

Correct Answer :-

- Anal / गुदावस्था (एनल)

5) What is Progressive Education? / प्रगतिशील शिक्षा क्या है?

1. It has standardized testing / इसमें मानकीकृत परीक्षण होता है।
2. It is Learning by doing / इसमें करते हुए अधिगम (लर्निंग बाई डूइंग) होता है।
3. It is data-driven learning / इसमें डेटा-आधारित शिक्षा होती है।
4. It has standards-based curriculum / इसमें मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है।

Correct Answer :-

- It is Learning by doing / इसमें करते हुए अधिगम (लर्निंग बाई डूइंग) होता है।

6) _____ is called maturation. / _____ को परिपक्वता कहा जाता है।

1. Family intervention / पारिवारिक हस्तक्षेप
2. A change due to cultural influences / सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन
3. Natural biological development / प्राकृतिक जैविक विकास
4. Change due to environmental pressures / पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन

Correct Answer :-

- Natural biological development / प्राकृतिक जैविक विकास

7) _____ study is applied to study in which some of the individuals have been measured on at least two successive occasions / _____ अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है, जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम दो लगातार अवसरों पर मापा जाता है।

1. Extended Longitudinal Method / विस्तारित अनुदैर्घ्य वृद्धि
2. Longitudinal growth/ अनुदैर्घ्य वृद्धि
3. Cross Longitudinal Method/ क्रॉस अनुभागीय विकास
4. Mixed longitudinal/ मिश्रित अनुदैर्घ्य

Correct Answer :-

- Mixed longitudinal/ मिश्रित अनुदैर्घ्य

8) The main objective of ADIP scheme is to provide _____ to persons with locomotor disability. / एडीआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य, लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को _____ प्रदान करना है।

1. Disability certificate / दिव्यांगता प्रमाणपत्र
2. Employment / रोजगार
3. Education / शिक्षा
4. Aids and Appliances / सहायक और उपकरण

Correct Answer :-

- Aids and Appliances / सहायक और उपकरण

9) The three major themes in Vygotsky's Social Development Theory are: / वाइगोत्सकी के सामाजिक विकास सिद्धांत में तीन प्रमुख विषय हैं:

1. Cognitive Apprenticeship, Social Interaction and Reciprocal Determinism. / संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, सामाजिक सहभागिता और पारस्परिक निर्धारणवाद
2. Cognitive Apprenticeship, Legitimate Peripheral Participation, The Zone of Proximal Development. / संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, वैध परिधीय भागीदारी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र
3. Reciprocal Determinism, Reward and Punishment, Classical Conditioning. / पारस्परिक निर्धारणवाद, प्रोत्साहन और दंड, शास्त्रीय अनुकूलन (क्लासिकल कंडीशनिंग)
4. Social Interaction, The Zone of Proximal Development, The More Knowledgeable Other. / सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न

Correct Answer :-

- Social Interaction, The Zone of Proximal Development, The More Knowledgeable Other. / सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न

10) Ability grouping is a kind of segregation of the _____ to provide greater opportunities of interaction and stimulation. / विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन, _____ के एक प्रकार का पृथक्करण है।

1. Disadvantaged / वंचित
2. Normal / सामान्य
3. Backward / पश्चवर्ती
4. Gifted / प्रतिभावान

Correct Answer :-

- Gifted / प्रतिभावान

11)

Language development in children follows the Principle of / बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है:

1. Integration / एकीकरण
2. Uniform pattern / एकरूप पैटर्न
3. Continuity / निरंतरता
4. Individual differences / व्यक्तिगत भिन्नता

Correct Answer :-

- Uniform pattern / एकरूप पैटर्न

12) Direct method is also known as : / प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है:

1. Direct approach / प्रत्यक्ष दृष्टिकोण
2. Inductional approach / प्रेरणात्मक दृष्टिकोण
3. Natural method / प्राकृतिक विधि
4. Indirect approach / अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण

Correct Answer :-

- Natural method / प्राकृतिक विधि

13) In collaborative learning, it is better that the students go through _____. / सहयोगी अधिगम में, यह बेहतर है कि छात्र _____ के माध्यम से जाएं।

1. Self-assessment / स्वतः आंकलन
2. Formative assessment / रचनात्मक आंकलन
3. Peer assessment / साथी आंकलन
4. Summative assessment / योगात्मक आंकलन

Correct Answer :-

- Peer assessment / साथी आंकलन

14) Rating scales are used to measure / _____ को मापने के लिए क्रम निर्धारण मान (रेटिंग स्केल) का उपयोग किया जाता है।

1. Intelligence / बुद्धि
2. Attitudes / अभिवृत्ति
3. Achievement / उपलब्धि
4. Skills / कौशल

Correct Answer :-

- Attitudes / अभिवृत्ति

15) Which of the following disorders is caused by an extra twenty-first chromosome? / निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त इक्कीसवें गुणसूत्र के कारण होता है?

1. Phenylketonuria / फ़ेनिलकीटोनुरिया
2. Down syndrome / डाउन सिंड्रोम
3. Turner's syndrome / टर्नर का सिंड्रोम
4. Sickle cell anemia / दरांती कोशिका अरक्तता (सिकेल सेल एनीमिया)

Correct Answer :-

- Down syndrome / डाउन सिंड्रोम

16) Which of the following will occur if the stimuli of the first task is greater in similarity in the second task? / निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना, दूसरे कार्य में समानता से अधिक है?

1. No transfer will occur / कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा।
2. Extent of transfer will be minimum / स्थानांतरण का विस्तार न्यूनतम होगा।
3. Extent of transfer will be less / स्थानांतरण का विस्तार कम होगा।
4. Extent of transfer will be greater / स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा।

Correct Answer :-

- Extent of transfer will be greater / स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा।

17) Which of the following statements best defines motivation? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करता है?

1. Internal state of an individual that arouses, directs, and maintains behaviour. / किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है।
2. State of one's emotional strength to respond to difficult situation. / कठिन परिस्थिति का जवाब देने के लिए एक भावनात्मक शक्ति की स्थिति।
3. One's ability to demonstrate discipline. / अनुशासन प्रदर्शित करने की क्षमता
4. One's ability to do a task quickly and neatly. / किसी कार्य को जल्दी और उम्दा तरीके से करने की क्षमता।

Correct Answer :-

- Internal state of an individual that arouses, directs, and maintains behaviour. / किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है।

18) Which of the following is not characteristic of a relational learning style? / निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है?

1. Sequential thinking / अनुक्रमिक सोच
2. Perception of information as part of a whole / संपूर्ण के हिस्से के रूप में सूचना की धारणा
3. Intuitive learning / सहज ज्ञान युक्त अधिगम
4. Improvisation / आशुरचना या तात्कालिक प्रदर्शन

Correct Answer :-

- Sequential thinking / अनुक्रमिक सोच

19) Which of the following teaches parents a range of techniques for controlling and managing their children's symptoms, especially with children diagnosed with conduct disorder? / निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी, माता-पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार (कंडक्टर डिसऑर्डर) से पीड़ित होते हैं?

1. Parent training programmes / पैरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
2. Functional Family therapy / कार्यात्मक परिवार थेरेपी
3. Systematic family therapy / प्रणालीगत फैमिली थेरेपी
4. Play therapy / प्ले थेरेपी

Correct Answer :-

- Parent training programmes / पैरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स

20) What among these are not personality traits? / इनमें से क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं हैं?

1. Thinking-feeling/ विचार- भावना
2. Judging-perceiving / आंकना-समझना
3. Sensation-intuition./ संवेदना- अंतः प्रज्ञा
4. height-color / कद-रंग

Correct Answer :-

- height-color / कद-रंग

21) What is a rule that always leads to a solution if used correctly called? / उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाये?

1. Heuristic / स्वतः शोध (ह्युरिस्टिक)
2. Algorithm / एल्गोरिथ्म
3. Information processing / सूचना प्रसंस्करण
4. Stereotype / रूढ़ियुक्ति (स्टीरियोटाइप)

Correct Answer :-

- Algorithm / एल्गोरिथ्म

22) What type of attention is displayed when a child focuses all his attention on the task at hand, ignoring other information? / जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है, और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है, तो किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित होता है?

1. Selective attention / चयनात्मक अवधान
2. Simultaneous attention / समकालिक अवधान

3. Divided attention / विभक्त अवधान

4. General attention / सामान्य अवधान

Correct Answer :-

- Selective attention / चयनात्मक अवधान

23) There is an addition of information to the existing information in _____ learning./ _____ अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है।

1. Sporadic / छिटपुट

2. Spiral / सर्पिल

3. Linear / रैखिक

4. Disjunctive / वियोगी

Correct Answer :-

- Spiral / सर्पिल

24) Who among the following did not propose a trait theory of personality? /

निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत (ट्रेट थ्योरी) प्रस्तावित नहीं किया?

1. Hans Eysenk / हंस ईसनेक

2. Raymond Cattell / रेमंड कैटेल

3. Albert Bandura / अल्बर्ट बॅण्डुरा

4. Gordon Allport / गॉर्डन ऑलपोर्ट

Correct Answer :-

- Albert Bandura / अल्बर्ट बॅण्डुरा

25) An individual achieves the masculine or feminine social role during _____. / एक व्यक्ति _____ के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है।

1. Childhood / बचपन (चाइल्डहुड)

2. Adolescence / किशोरावस्था

3. Late Childhood / पश्च बचपन (लेट चाइल्डहुड)

4. Infancy / शैशव

Correct Answer :-

- Adolescence / किशोरावस्था

26) Meta components, performance components and knowledge acquisition components are categories of: / मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं:

1. Tripartite Theory/ त्रिपक्षीय सिद्धांत
2. Triarchic Theory/ त्रिकोणीय सिद्धांत
3. Allport's Theory/ अलपोर्ट का सिद्धांत
4. Eysenck's Theory/ आईसेंक का सिद्धांत

Correct Answer :-

- Triarchic Theory/ त्रिकोणीय सिद्धांत

27) CANCELLED

Which of the following is not a use of an intelligence test? / निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है?

1. Selection of students for scholarships / छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन
2. Evaluation of teacher's performance / शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन
3. Grading of a student / एक छात्र की ग्रेडिंग
4. Predicting a student's success / एक छात्र की सफलता का पूर्वानुमान करना

Correct Answer :-

- Grading of a student / एक छात्र की ग्रेडिंग

28) Skinner advocated that learning was more likely to occur when/ स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब

1. Explaining public events or observable behavior/ सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या करना।
2. Observation of a behavior is followed by modelling/ एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्श द्वारा किया जाता है।
3. Behavior becomes a reflex response to stimulus/ व्यवहार उत्तेजना के लिए एक प्रतिसाद प्रतिक्रिया बन जाता है।
4. Behavior is reinforced with a reward or punishment/ व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है।

Correct Answer :-

- Behavior is reinforced with a reward or punishment/ व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है।

29) Which one of the following methods is used to study the behavior of an individual in its totality? / निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है?

1. Observation Method / अवलोकन विधि
2. Experimental Method/ प्रयोगात्मक विधि
3. Survey Method/ सर्वेक्षण विधि
4. Case study Method/ केस स्टडी विधि

Correct Answer :-

- Case study Method/ केस स्टडी विधि

30) Which of the following is a projective technique to assess the personality? / निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है ?

1. Rorschach Ink blot / रोशार्क स्याही का धब्बा (रोसार्क इंकब्लॉट)
2. Interview / साक्षात्कार
3. Questionnaire /प्रश्नावली
4. Observation / प्रेक्षण

Correct Answer :-

- Rorschach Ink blot / रोशार्क स्याही का धब्बा (रोसार्क इंकब्लॉट)

Topic:- General Sanskrit(L1GS)

1) भारतं प्राचीनकाले कस्य देशः ?

1. भरध्वाजस्य ।
2. भामहस्य ।
3. भार्गवस्य ।
4. भरतस्य ।

Correct Answer :-

- भरतस्य ।

2) मुद् धातोः क्त्वा प्रत्यये रूपं किम् ?

1. मैदित्वा ।
2. मुदित्वा ।
3. मादयित्वा ।

मुमुदाययित्वा ।

4.

Correct Answer :-

मुदित्वा ।

3) बहुलायाः पुत्रः कः ?

बाहुलेयः ।

1.

बैहलेयः ।

2.

बिहलेयः ।

3.

बूहलेयः ।

4.

Correct Answer :-

बाहुलेयः ।

.

4) विहायसः इति पदस्य मूलरूपं किम् ?

विहयस् ।

1.

विहायास् ।

2.

विहयास् ।

3.

विहायस् ।

4.

Correct Answer :-

विहायस् ।

.

5) अपि इति कीदृशं पदम् ?

1. अव्ययम् ।

1.

2. पुंलिङ्गम् ।

2.

3. नपुंसकम् ।

3.

4. स्त्रीलिङ्गम् ।

4.

Correct Answer :-

• अव्ययम् ।

•

6) विधाय इत्यत्र प्रत्ययः कः ?

1. शानच् ।

1.

2. ल्यप् ।

2.

3. शतृ ।

3.

4. क्त्वा ।

4.

Correct Answer :-

• ल्यप् ।

•

7) ८.०५ इति घण्टां अक्षरैः लिखत ।

1. पञ्चनिमेषाधिक-अष्टवादनम् ।

1.

2. पञ्चनिमेषन्यून-अष्टवादनम् ।

2.

3. पञ्चनिमेषाधिक-इष्टवादनम् ।

3.

4. पञ्चनिमेषाधिक-अष्टवादनम् ।

4.

Correct Answer :-

पञ्चनिमेषाधिक-अष्टवादनम् ।

8) शुद्धं वाक्यं चिनुत ।

1. स्वाध्यायात् मा प्रमदः ।

2. स्वाध्यायात् मां प्रमदः ।

3. स्वाध्यायं मा प्रमदः ।

4. स्वाध्यायेन मा प्रमदः ।

Correct Answer :-

स्वाध्यायात् मा प्रमदः ।

9) कन्याकुमारी कस्यां दिशि अस्ति ?

1. दक्षिणस्याम् ।

2. उत्तरस्याम् ।

3. पूर्वस्याम् ।

4. पश्चिमायाम् ।

Correct Answer :-

दक्षिणस्याम् ।

10) 'आरामपुरम्' इत्यस्य वर्णान् पृथक् पृथक् लिखत ।

1. आ रा म पु र म् ।

2. अ अ र् अ अ म् अ प् उ र् अ म् ।

3. आ रा आ म अ पु उ र अम् ।

4. आ र् आ म् अ प् उ र् अ म् ।

Correct Answer :-

. आ र् आ म् अ प् उ र् अ म् ।

11) आविर्बभूवे इति कस्मिन् पुरुषे अस्ति ?

1. मध्यमे ।

2. उत्तम ।

3. मध्यमोत्तम ।

4. प्रथम ।

Correct Answer :-

. प्रथम ।

12) प्रति शब्दयोगे का विभक्तिः प्रयुज्यते ?

1. प्रथमा ।

2. पञ्चमी ।

3. तृतीया ।

4. द्वितीया ।

Correct Answer :-

. द्वितीया ।

13) विद् धातोः लोट्-उत्तमपुरुष-बहुचनरूपं किम् ?

1. अदाम ।

2. वन्दाम ।

3. वेदाम ।

4. विदाम ।

Correct Answer :-

• विदाम ।

14) धात्रंशः इत्यस्य सन्धिः कः ?

1. पूर्वरूपः ।

2. गुणः ।

3. यण् ।

4. वान्तादेशः।

Correct Answer :-

• यण् ।

15) तालव्यवर्णाः के ?

1. डञ्जनमाः ।

2. इचुयशाः ।

3. यवरलाः ।

4. ऋणुरषाः ।

Correct Answer :-

. इचुयशाः ।

16) पीठान्ते इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम् ?

1. पीठस्य अन्ते ।

2. पीठे अन्ते ।

3. पीठा न्ते ।

4. पीठस्य अनन्ते ।

Correct Answer :-

. पीठस्य अन्ते ।

17) भीमसेनशङ्खस्य नाम किम् ।

1. महापौण्ड्रः ।

2. देवदत्तः ।

3. पाञ्चजन्यम् ।

4. पौण्ड्रः ।

Correct Answer :-

. पौण्ड्रः ।

18) व्याघ्र शब्दस्य पर्यायपदं किम् ?

1. पञ्चाननः ।

2. शार्दूलः ।

3. मृगेन्द्रः ।

4. मृगराजः ।

Correct Answer :-

• शार्दूलः ।

19) गोशब्दस्य धातुः कः ?

1. गीत् ।

2. गम् ।

3. गच्छ ।

4. गाम् ।

Correct Answer :-

• गम् ।

20) गाणपत्यम् इति शब्दं शोधयत ।

1. गाणापत्यम् ।

2. गाणपतम् ।

3. गणपतिम् ।

4. गणाधिपतिम् ।

Correct Answer :-

• गाणपतम् ।

21) तुषारकाले किं पतति ।

1. धान्यम् ।

2. हिमम् ।

3. फलम् ।

4. पुष्पम् ।

Correct Answer :-

• हिमम् ।

22) १९५७ इति संख्यां शब्दैः लिखत ।

1. सप्तपञ्चाशदुत्तरैकोनविंशतिः ।

2. सप्तपञ्चाशदुत्तरैकोनविंशतिशहस्रम् ।

3. सप्तपञ्चाशदुत्तरैकोनविंशतिशतम् ।

4. सप्तपञ्चशदुत्तरैकोनविंशतिशतम् ।

Correct Answer :-

• सप्तपञ्चाशदुत्तरैकोनविंशतिशतम् ।

23) कावेरी कस्य पुत्री ?

1. कामायनस्य ।

2. कूर्मस्य ।

3. कुबेरस्य ।

4. कवेरस्य ।

Correct Answer :-

. कवेरस्य ।

24) द्वेषः इत्यस्य विरुद्धार्थकपदं किम् ?

1. क्रोधः ।

2. मदः ।

3. विरोधः ।

4. रागः ।

Correct Answer :-

. रागः ।

25) तत् मयः - अस्य सन्धिं कुरुत ।

1. तन्मयः ।

2. तत्तमयः ।

3. तत्तोमयः ।

4. तन्नमयः ।

Correct Answer :-

. तन्मयः ।

26) आहत्य दिशः कति सन्ति ?

1. द्वादश ।
2. पञ्चदश ।
3. दश ।
4. षोडश ।

Correct Answer :-

- दश ।

27) अवन्दत इत्यस्य भविषत्कालरूपं किम् ?

1. वन्दन्ते ।
2. अवन्दत ।
3. वन्दिष्यते ।
4. वन्दते ।

Correct Answer :-

- वन्दिष्यते ।

28) विद्वल्लोकः इत्यस्य सन्धिविच्छेदं कुरुत ।

1. विद्वत् लोकः ।
2. विद्वत्ता लोकः ।
3. विद्वत् अलोकः ।
4. विद्व ल्लोकः ।

Correct Answer :-

विद्वत् लोकः ।

29) 'कैलासपतिः' शब्दस्य अर्थः कः ?

1. शिवः ।

1.

2. रावणः ।

2.

3. देवेन्द्रः ।

3.

4. विष्णुः ।

4.

Correct Answer :-

शिवः ।

30) विन्दन्ते इत्यस्य पर्यायपदं किम् ?

1. कुरुते ।

1.

2. लभन्ते ।

2.

3. आस्ते ।

3.

4. क्रियन्ते ।

4.

Correct Answer :-

लभन्ते ।

Topic:- General Hindi(L2GH)

1) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनुं बातां सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युँ, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न- 'पास्युँ' शब्द का अर्थ है -

1. पाना (पाउँ)
2. वियोग
3. खोना (खोउँ)
4. प्रीत

Correct Answer :-

- पाना (पाउँ)

2) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युँ बाग लगास्युँ नित उठ दरसण पास्युँ।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युँ।
चाकरी में दरसण पास्युँ, सुमरण पास्युँ खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युँ, तीनू बातों सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युँ, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न- 'जमनाजी रा तीरां' का अभिप्राय है -

1. इनमें से कोई नहीं
2. जलाशय की धारा
3. यमुना का किनारा
4. जल का भराव

Correct Answer :-

- यमुना का किनारा

3) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युँ बाग लगास्युँ नित उठ दरसण पास्युँ।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युँ।
चाकरी में दरसण पास्युँ, सुमरण पास्युँ खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युँ, तीनू बातों सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावँ बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युँ, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - 'हिवड़ो घनो अधीराँ' कहने से क्या तात्पर्य है ?

1. इनमें से कोई नहीं
2. हृदय का अपमानित होना
3. हृदय का खुश होना
4. हृदय का व्याकुल होना

Correct Answer :-

- हृदय का व्याकुल होना

4) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युँ बाग लगास्युँ नित उठ दरसण पास्युँ।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युँ।
चाकरी में दरसण पास्युँ, सुमरण पास्युँ खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युँ, तीनुं बाताँ सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावँ बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युँ, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - प्रस्तुत पद्य में रचयिता का वर्णन किया गया, बताइए इसके रचयिता कौन हैं ?

1. मीराबाई
2. रैदास
3. गिरधारी
4. स्याम

Correct Answer :-

- मीराबाई

5) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युँ बाग लगास्युँ नित उठ दरसण पास्युँ।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युँ।
चाकरी में दरसण पास्युँ, सुमरण पास्युँ खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युँ, तीनुं बाताँ सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावँ बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युँ, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - प्रस्तुत पद्य में मीरा की भक्ति किस भाव की है?

1. माधुर्य
2. दास्य
3. प्रेमा
4. सख्य

Correct Answer :-

- दास्य

6) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनू बातों सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणाव बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युं, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवडो घणो अधीरां।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - चाकरी करने से मीरा को किस चीज का लाभ नहीं होगा ?

1. बात करने का
2. भक्ति करने का
3. सुमिरन
4. दर्शन

Correct Answer :-

- बात करने का

7) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनू बातों सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणाव बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युं, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवडो घणो अधीरां।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - कृष्ण का स्वरूप है ?

1. केवल मुरली धारण करने वाला
2. केवल गाय चराने वाला
3. केवल पीताम्बर पहने हुए
4. उपरोक्त सभी

Correct Answer :-

- उपरोक्त सभी

8) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनुं बाताँ सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युं, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवडो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - प्रस्तुत पंक्ति में मीरा, कृष्ण से क्या बनने की विनती करती हैं?

1. गोपिका
2. दासी
3. प्रेमिका
4. पत्नी

Correct Answer :-

- दासी

9) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनुं बाताँ सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युं, पहर कुसुम्बी सारी।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवडो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - कुसुम्बी सारी का क्या आशय है ?

1. काली साड़ी
2. केसरिया साड़ी

3. चांदी से जड़ी साड़ी

4. महँगी साड़ी

Correct Answer :-

- केसरिया साड़ी

10) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युँ बाग लगास्युँ नित उठ दरसण पास्युँ।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युँ।
चाकरी में दरसण पास्युँ, सुमरण पास्युँ खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युँ, तीनूं बाताँ सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युँ, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - 'पीताम्बर' है -

1. काला वस्त्र
2. नीला वस्त्र
3. पीला वस्त्र
4. हरा वस्त्र

Correct Answer :-

- पीला वस्त्र

11) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युँ बाग लगास्युँ नित उठ दरसण पास्युँ।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युँ।
चाकरी में दरसण पास्युँ, सुमरण पास्युँ खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युँ, तीनूं बाताँ सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युँ, पहर कुसुम्बी साई।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - मीरा किसकी भक्त हैं?

1. केवल मोहन की
2. केवल गिरधारी की
3. केवल श्याम की

4. उपरोक्त सभी

Correct Answer :-

- उपरोक्त सभी

12) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनूं बातां सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युं, पहर कुसुम्बी साईं।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - प्रस्तुत पद्य की भाषा क्या है?

1. पंजाबी
2. ब्रज
3. खड़ी बोली
4. कुमाउनी

Correct Answer :-

- ब्रज

13) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनूं बातां सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युं, पहर कुसुम्बी साईं।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - धेनु का पर्यायवाची शब्द नहीं है ?

1. गाय
2. रचना
3. भद्रा
4. रोहिणी

Correct Answer :-

- रचना

14) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनू बातों सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युं, पहर कुसुम्बी साईं।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - 'सुमरण' शब्द का अर्थ क्या है?

1. नाराज होना
2. सद्बुद्धि
3. रोना
4. याद करना

Correct Answer :-

- याद करना

15) स्याम म्हाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखोजी।
चाकर रहस्युं बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं।
बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्युं।
चाकरी में दरसण पास्युं, सुमरण पास्युं खरची।
भाव भगती जागीरी पास्युं, तीनू बातों सरसी।

मोर मुगट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला।
बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।

ऊँचा, ऊँचा महल बणावं बिच बिच राखूँ बारी।
साँवरिया रा दरसण पास्युं, पहर कुसुम्बी साईं।
आधी रात प्रभु दरसण, दीज्यो जमनाजी रा तीरां।
मीरां रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीराँ।

उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - दासी बनकर मीरा क्या-क्या करना चाहती हैं ?

1. केवल दर्शन करना
2. केवल बाग लगाना
3. केवल लीला गाना
4. उपरोक्त सभी

Correct Answer :-

- उपरोक्त सभी

16) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न- 'स्वाभाविकता' का विलोम शब्द है ?

1. अस्वाभाविकता
2. सहजता
3. अपस्मार
4. असूया

Correct Answer :-

- अस्वाभाविकता

17) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न- 'अनुरूप' में उपसर्ग बताइए ?

1. प
2. रूप
3. अनु
4. अ

Correct Answer :-

- अनु

18) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने

पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए— लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न- आग में स्त्री का कूदना क्या है ?

1. आधुनिक होना
2. विशुद्ध होना
3. सुंदर होना
4. विद्रोही होना

Correct Answer :-

- विशुद्ध होना

19) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विद्विप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि— "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए— लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - पुरुषों की शिक्षा का अनर्थकारी परिणाम है ?

1. केवल चोरी करना
2. केवल बम के गोले फेंकना
3. केवल मनुष्य की हत्या करना
4. उपरोक्त सभी

Correct Answer :-

- उपरोक्त सभी

20) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विद्विप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि— "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए— लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - 'कुल' का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है ?

1. सहारा
2. कुटुंब

3. कुनबा

4. परिवार

Correct Answer :-

- सहारा

21) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - 'किंचित्' शब्द से तात्पर्य है ?

1. चिता के समान
2. बहुत
3. चित्तरहित
4. थोड़ा

Correct Answer :-

- थोड़ा

22) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य है ?

1. इनमें से कोई नहीं
2. नारी की शोभा
3. नारी चेतना
4. नारी का स्वभाव

Correct Answer :-

- नारी चेतना

23)

स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - शकुंतला ने दुष्यंत को फटकार कर ?

1. पुण्य किया था
2. अस्वाभाविकता प्रकट की थी
3. स्वाभाविकता प्रकट की थी
4. पाप किया था

Correct Answer :-

- स्वाभाविकता प्रकट की थी

24) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - पद्य में आर्य क्या है ?

1. वंश
2. जगह का नाम
3. व्यक्ति का नाम
4. फल का नाम

Correct Answer :-

- वंश

25) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - 'नरहत्या' से तात्पर्य है ?

1. इनमें से कोई नहीं
2. मानव हत्या
3. पशु हत्या
4. नारी हत्या

Correct Answer :-

- मानव हत्या

26) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - गन्धर्व विवाह से क्या तात्पर्य है ?

1. वर-वधू आपस में राजी नहीं होते हैं।
2. वर-वधू को अपने पूरे कुनबे से आज्ञा लेनी पड़ती है।
3. वर-वधू को अपने माता-पिता की आज्ञा लेनी पड़ती है।
4. वर-वधू को अपने माता-पिता की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है।

Correct Answer :-

- वर-वधू को अपने माता-पिता की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है।

27) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - स्त्री का बहुवचन क्या होगा ?

1. इनमें से कोई नहीं
2. नारियाँ
3. स्त्रीत्व
4. स्त्रियाँ

Correct Answer :-

- स्त्रियाँ

28) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - किससे अधिक साध्वी स्त्री इस संसार में नहीं है ?

1. सीता
2. उर्मिला
3. शकुंतला
4. यशोधरा

Correct Answer :-

- सीता

29) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया गया है, सुनिए- लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न - 'अत्याचार' में कौन सी संधि है ?

1. अयादि संधि
2. यण संधि
3. विसर्ग संधि
4. दीर्घ संधि

Correct Answer :-

- यण संधि

30) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना- ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परन्तु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और गृह-गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि- "आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गन्धर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है!" पत्नी

पर घोर-से-घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने, शकुंतला नाटक में, अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य *कहलवाया* है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या *कहलवाया* गया है, सुनिए— लक्ष्मण! जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है?

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइये:

प्रश्न – गद्य में जिस 'शकुंतला' की बात हुई है वो कौन सी विधा है ?

1. नाटक
2. उपन्यास
3. कहानी
4. कविता

Correct Answer :-

- नाटक

Topic:- Science (SCI)

1) The relative density of a substance is 13.6 and its volume is 20 cm³. What is its mass? /

किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व 13.6 है और इसका आयतन 20 सेमी³ है। इसका द्रव्यमान कितना है?

1. 272g / ग्राम
2. 2.72g / ग्राम
3. 27.2g / ग्राम
4. 0.06g / ग्राम


Correct Answer :-

- 272g / ग्राम

2)

The current–voltage graph for two conductors 'P' and 'Q' are shown below. Select the correct statement from the following options. /

दो सुचालक 'P' और 'Q' के लिए विद्युत् वोल्टेज आरेख नीचे दिखाए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों से सही कथन का चयन करें।



1. For the same value of voltage, the current through the conductor Q is more than the current through the conductor P. /

वोल्टेज के समान मान के लिए, विद्युत् जो सुचालक Q से होकर गुजरती है, सुचालक P से गुजरने वाली विद्युत् से अधिक होती है।

2. The resistance of the conductor P is equal to the resistance of the conductor Q. /

सुचालक P का प्रतिरोध सुचालक Q के प्रतिरोध के समान है।

3. The resistance of the conductor P is greater than the resistance of the conductor Q. /

सुचालक P का प्रतिरोध सुचालक Q के प्रतिरोध से अधिक है।

4. The resistance of the conductor P is less than the resistance of the conductor Q. /

सुचालक P का प्रतिरोध सुचालक Q के प्रतिरोध से कम है।

Correct Answer :-

• The resistance of the conductor P is less than the resistance of the conductor Q. /

सुचालक P का प्रतिरोध सुचालक Q के प्रतिरोध से कम है।

3) What are the food requirements of dairy animals? /

डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएँ क्या हैं?

1. Cattle need balanced rations containing all nutrients in proportionate amount. /

मवेशियों को उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों वाले संतुलित राशन की आवश्यकता होती है।

2. Cattle require appropriate amount of food to sustain life needs. /

मवेशियों को जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन की उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है।

3. Cattle are fed with plenty of green grass as well as dried fodder. /

मवेशियों को अधिक हरे घास के साथ ही सूखा चारा भी खिलाया जाता है।

4. Cattle feed includes roughage, which is largely fibre and concentrates which are low in fibre but contains high level of proteins and other nutrients. /

मवेशियों के भोजन में मोटा चारा, जो व्यापक रूप से रेशेदार हो तथा पशु-आहार जिनमें फाइबर कम होता है लेकिन इसमें उच्च स्तर के प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व होते हैं।

Correct Answer :-

• Cattle feed includes roughage, which is largely fibre and concentrates which are low in fibre but contains high level of proteins and other nutrients. /

मवेशियों के भोजन में मोटा चारा, जो व्यापक रूप से रेशेदार हो तथा पशु-आहार जिनमें फाइबर कम होता है लेकिन इसमें उच्च स्तर के प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व होते हैं।

4) The cracks inside a metal block can be detected with the help of:/

धातु ब्लॉक के आंतरिक दरारों की सहायता से किसका पता लगाया जा सकता है:

1. Visible light / दृश्य प्रकाश

2. Infrasonic sound / अवश्रव्य ध्वनि

3. Audible sound / श्रव्य ध्वनि

4. Ultra sound / परश्रव्य ध्वनि

Correct Answer :-

- Ultra sound / परश्रव्य ध्वनि

5) At the top of the mountain the atmospheric pressure is: /

पहाड़ के शीर्ष पर, वातावरणीय दबाव निम्न अनुसार होता है:

1. Less than the pressure at the sea level / समुद्र तल पर दबाव से कम
2. Equal to the pressure at the sea level / समुद्र तल पर दबाव के बराबर
3. Equal to zero / शून्य के बराबर
4. Greater than the pressure at the sea level / समुद्र तल पर दबाव से अधिक

Correct Answer :-

- Less than the pressure at the sea level / समुद्र तल पर दबाव से कम

6) Haemophilia and colour blindness are _____ diseases. /

हेमोफिलिया और वर्णांधता _____ रोग हैं।

1. acquired / उपार्जित
2. communicable / संक्रामक
3. genetic disorders / आनुवंशिक विकार
4. non communicable / असंक्रामक

Correct Answer :-

- genetic disorders / आनुवंशिक विकार

7) Polar bear survives in the very cold weather conditions because of: /

ध्रुवीय भालू अत्यधिक शीतल मौसम की स्थिति में भी जीवित रहता है, क्योंकि:

1. Thick layer of fat under skin / त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत के कारण
2. Abundant fish / प्रचुर मछली
3. Oversize / विशालकाय
4. Ice covered land / बर्फ से ढँकी ज़मीन

Correct Answer :-

- Thick layer of fat under skin / त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत के कारण

8) Convert: 15m/s into km/h /

15m/s को km/h में रूपांतरित कीजिए।

1. 54km/h / 54 किलोमीटर/घंटा

2. 27km/h / 27 किलोमीटर/घंटा
3. 18km/h / 18 किलोमीटर/घंटा
4. 36km/h / 36 किलोमीटर/घंटा

Correct Answer :-

- 54km/h / 54 किलोमीटर/घंटा

9) Which of the following is not advisable for controlling the noise pollution? /

निम्नलिखित में से क्या ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित नहीं है?

1. The TV and the music systems should be run at low volume. /
टीवी और संगीत तंत्र (सिस्टम) को कम आवाज में चलाना चाहिए।
2. The least number of trees should be planted around the buildings./
भवनों के चारों ओर कम से कम पेड़ लगाए जाने चाहिए।
3. Automobile horns should be minimized at the residential area./
आवासीय क्षेत्र में ऑटोमोबाइल हॉर्न को कम से कम किया जाना चाहिए।
4. Industrial units should be set up away from the residential area./
औद्योगिक इकाइयों को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना चाहिए।

Correct Answer :-

- The least number of trees should be planted around the buildings./
भवनों के चारों ओर कम से कम पेड़ लगाए जाने चाहिए।

10) For a normal eye, the far point and near point are _____ and _____ respectively./

एक सामान्य नेत्र के लिए, दूरस्थ दृष्टि बिंदु और निकट दृष्टि बिंदु क्रमशः _____ और _____ है।

1. infinite , 25 cm / अनंत, 25 सेमी
2. infinite , zero / अनंत, शून्य
3. 45cm 25 cm / 45 सेमी, 25 सेमी
4. 25 cm , 10 cm / 25 सेमी, 10 सेमी

Correct Answer :-

- infinite , 25 cm / अनंत, 25 सेमी

11) Alice gets 100 out of 100 in her Math test to get the first rank always. This is an example of _____ motivation / एलिस को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, गणित परीक्षा में हमेशा 100 में से 100 अंक मिलते हैं। यह _____ प्रेरणा का एक उदाहरण है।

1. Extrinsic / बाह्य
2. power-based / शक्ति-आधारित

3. fear-based / भय-आधारित

4. Competitive / प्रतियोगी

Correct Answer :-

- Extrinsic / बाह्य

12) A wire when connected to 220V main supply has power dissipation ' P_1 '. Now the wire is cut into two equal pieces and combined in parallel and then it is connected to the same supply. The power dissipation in this case is ' P_2 '. Find $P_1 : P_2$. /

एक तार को जब 220V मुख्य आपूर्ति से जोड़ा जाता है तब उसमें विद्युत् अपव्यय ' P_1 ' होता है। अब तार को दो बराबर टुकड़ों में काटा जाता है और समानांतर रूप से जोड़कर इसे समान आपूर्ति से जोड़ा जाता है। इस स्थिति में विद्युत् अपव्यय ' P_2 ' होता है। $P_1 : P_2$ ज्ञात करें।

1. 2:1

2. 3:1

3. 1:2

4. 1:4

Correct Answer :-

- 1:4

13) To save maximum energy it is advisable to use: /

अधिकतम ऊर्जा बचाने के लिए किसका उपयोग करना उचित बताया जाता है:

1. CFL lamps in our house / हमारे घर में सीएफएल लैंप

2. Filament lamps in our house / हमारे घर में फिलामेंट लैम्प (तंतु लैम्प)

3. Fluorescent lamps in our house / हमारे घर में प्रतिदीप्त लैंप

4. LED lamps in our house / हमारे घर में एलईडी लैंप

Correct Answer :-

- LED lamps in our house / हमारे घर में एलईडी लैंप

14) A solution contains 15 mL of alcohol and 85 mL of water. Calculate the volume by volume percentage of solution. /

एक विलयन में, 85 mL पानी और 15 mL अल्कोहल होता है। विलयन के मात्रा प्रतिशत से मात्रा की गणना करें।

1. 22.4%

2. 15%

3. 17.6%

4. 85%

Correct Answer :-

- 15%

15) Identify the correct electronic configuration of calcium /

कैल्शियम के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहचान करें।

1. 2,8,8,2
2. 2,8,5
3. 2,8,8,1
4. 2,8,7

Correct Answer :-

- 2,8,8,2

16) The number of oxygen atoms present in 1 mole of $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ /

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ के एक ग्रामअणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या मौजूद है:

1. 13.02×10^{23} oxygen atoms / 13.02×10^{23} ऑक्सीजन परमाणु
2. 6.022×10^{23} oxygen atoms / 6.022×10^{23} ऑक्सीजन परमाणु
3. 7.83×10^{24} oxygen atoms / 7.83×10^{24} ऑक्सीजन परमाणु
4. 4.63×10^{22} oxygen atoms / 4.63×10^{22} ऑक्सीजन परमाणु

Correct Answer :-

- 7.83×10^{24} oxygen atoms / 7.83×10^{24} ऑक्सीजन परमाणु

17) The process used to separate bacteria from water is /

पानी से बैक्टीरिया को अलग करने की प्रक्रिया है

1. Decantation / निस्तारण
2. Crystallisation / क्रिस्टलीकरण
3. Evaporation / वाष्पन
4. Filtration / निस्पंदन

Correct Answer :-

- Filtration / निस्पंदन

18) The pressure acting on a given area is 125N/m^2 . If the force applied is 2500N then the area on which the force applied is : /

किसी दिए गए क्षेत्र पर कार्यरत दाब 125N/m^2 है। यदि लगाया गया बल 2500N है तो क्षेत्र जिस पर बल लगाया गया है वह है:

1. $200\text{m}^2 / 200\text{मी}^2$
2. $2\text{m}^2 / 2\text{मी}^2$
3. $20\text{m}^2 / 20\text{मी}^2$
4. $20\text{cm}^2 / 20\text{सेमी}^2$

Correct Answer :-

- $20\text{m}^2 / 20\text{मी}^2$

19) About 5g of a yellow coloured non-metallic solid (X) is taken and heated. It produces an irritating smelling gas (Y). The gas (Y) is collected in a Gas jar and is shaken well with a little water when colourless Sulphurous acid (Z) is formed. What is the solid (X) and the gas (Y)? /

पीले रंग के ठोस अधातु (X) का लगभग 5 ग्राम लिया जाता है और गर्म किया जाता है। यह बुरी गंध वाली एक गैस (Y) उत्पन्न करता है। गैस (Y) को एक गैस जार में एकत्र किया जाता है और थोड़ा पानी डालकर हिलाया जाता है तब रंगहीन सल्फ्यूरस एसिड (Z) का निर्माण होता है। ठोस (X) एवं गैस (Y) क्या है?

1. $X = S_2$ & $Y = SO_3$
2. $X = P_4$ & $Y = P_2O_5$
3. $X = S_8$ & $Y = SO_2$
4. $X = S_4$ & $Y = SO_3$

Correct Answer :-

- $X = S_8$ & $Y = SO_2$

20) Out of the following given materials, which one will you prefer to make the handle of an electric kettle? /

निम्नलिखित दी गई सामग्रियों में से, आप किससे एक इलेक्ट्रिक केतली का हैंडल बनाना पसंद करेंगे?

1. Tungsten / टंगस्टन
2. Bakelite / बैकेलाइट
3. Copper / कॉपर
4. Aluminium / एल्युमिनियम

Correct Answer :-

- Bakelite / बैकेलाइट

21) A weak acid among the following is: /

निम्न में से एक दुर्बल अम्ल है:

1. Acetic acid / एसिटिक अम्ल
2. Hydrochloric acid / हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
3. Nitric acid / नाइट्रिक अम्ल

4. Sulphuric acid / सल्फ्यूरिक अम्ल

Correct Answer :-

- Acetic acid / एसिटिक अम्ल

22) Type of the soil is decided by the /

मृदा का प्रकार निम्न द्वारा तय किया जाता है

1. Amount of humus in it / उसमें खाद की मात्रा
2. Average size of the soil particles / मृदा के कणों का औसत आकार
3. Porosity of the soil. / मृदा का रन्ध्रकाश
4. Amount of microorganisms in it / उसमें सूक्ष्मजीवों की मात्रा

Correct Answer :-

- Average size of the soil particles / मृदा के कणों का औसत आकार

23) Element 'P' has atomic number 19. The incorrect statement among the following is: /

तत्व 'P' की परमाणु संख्या 19 है। निम्नलिखित में से गलत कथन है:

1. The valency of the element is 1 / तत्व की संयोजकता 1 है।
2. Element 'P' is a non-metal. / तत्व 'P' एक अधातु है।
3. Element 'P' belongs to group I / तत्व 'P' समूह I के अंतर्गत आता है।
4. Element 'P' belongs to 4th period / तत्व 'P' चौथे आवर्त के अंतर्गत आता है।

Correct Answer :-

- Element 'P' is a non-metal. / तत्व 'P' एक अधातु है।

24) What is the percentage of Carbon and Lead in Lead pencil, which we use for writing, drawing etc.? /

लीड पेंसिल जिसे हम लेखन, ड्राइंग इत्यादि के लिए उपयोग करते हैं उसमें कार्बन और शीशे की प्रतिशतता कितनी है?

1. 50% Carbon & 50% Lead. / 50% कार्बन एवं 50% शीशा।
2. 100% Carbon & 0% Lead. / 100% कार्बन एवं 0% शीशा।
3. 0% Carbon & 100% Lead / 0% कार्बन एवं 100% शीशा।
4. 75% Carbon & 25% Lead. / 75% कार्बन एवं 25% शीशा।

Correct Answer :-

- 100% Carbon & 0% Lead. / 100% कार्बन एवं 0% शीशा।

25) Which one of the following factors affects the quality of honey produced? /

निम्नलिखित में से किस कारक से शहद की गुणवत्ता प्रभावित होती है?

1. Number of worker bees which collect the nectar / पुष्प का मकरंद इकट्ठा करने वाले मजदूर मधुमक्खियों की संख्या
2. None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं
3. Queen bee and Drones / रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी
4. Flowers available to the bees for nectar / मधुमक्खियों के मकरंद हेतु उपलब्ध पुष्प पर

Correct Answer :-

- Flowers available to the bees for nectar / मधुमक्खियों के मकरंद हेतु उपलब्ध पुष्प पर

26) Which physical quantity has the unit N/kg? /

किस भौतिक राशि की इकाई N/kg है?

1. Velocity / वेग
2. Acceleration / त्वरण
3. Speed / चाल
4. Force / बल

Correct Answer :-

- Acceleration / त्वरण

27) Two of the components of ecosystem mentioned below are abiotic. Identify them.

Inorganic nutrients, herbivores, decomposers, climatic factors, forests /

नीचे उल्लिखित पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक अजीवीय हैं। उन्हें पहचानिए

अजैव पोषक तत्व, शाकाहारी, अपघटकारी, जलवायवी कारक, वन

1. Inorganic nutrients and forests / अजैव पोषक तत्व और वन
2. Decomposers and climatic factors / अपघटकारी और जलवायवी कारक
3. Decomposers and inorganic nutrients / अपघटकारी और अजैव पोषक तत्व
4. Climatic factors and inorganic nutrients / जलवायवी कारक और अजैव पोषक तत्व

Correct Answer :-

- Climatic factors and inorganic nutrients / जलवायवी कारक और अजैव पोषक तत्व

28) One among the substances given below can easily exist in all the 3 states of matter by varying its temperature. Identify that substance. /

नीचे दिए गए पदार्थों में से एक पदार्थ के तापमान में यदि फेर-बदल किया जाए, तो तीनों अवस्थाओं में सरलता से विद्यमान रह सकता है। उस पदार्थ की पहचान करें।

1. Table salt. / सामान्य नमक
2. Diamond. / हीरा
3. Helium gas. / हीलियम गैस

4. Water. / जल

Correct Answer :-

- Water. / जल

29) _____ is used for making the pencil lead. /

पेन्सिल लीड बनाने के लिए _____ का उपयोग किया जाता है।

1. Graphite / ग्रेफाइट
2. Diamond / हीरा
3. Silica / सिलिका
4. Calcium / कैल्शियम

Correct Answer :-

- Graphite / ग्रेफाइट

30) To move an uncharged body from its state of rest , we have to apply : /

किसी अनावेशित वस्तु को उसके विराम की स्थिति से निकालने के लिए, हमें लगाना होगा:

1. A balanced external force / एक संतुलित बाह्य बल
2. An unbalanced electrostatic force / एक असंतुलित स्थिर वैद्युत बल
3. An unbalanced external force / एक असंतुलित बाह्य बल
4. A balanced frictional force / एक संतुलित घर्षण बल

Correct Answer :-

- An unbalanced external force / एक असंतुलित बाह्य बल

31) During the extraction of Iron from Haematite, which substance acts as Flux in the Blast furnace, which removes the acidic Silica contaminating the Ore particles? /

हेमाटाइट से लौह के निष्कर्षण के दौरान, कौन सा पदार्थ ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क कणों को दूषित करने वाले अम्लीय सिलिका को हटाने वाले फ्लक्स के रूप में कार्य करता है?

1. P_2O_5
2. C.
3. $CaCl_2$
4. CaO

Correct Answer :-

- CaO

32) National Science Day is celebrated on _____ in India. / भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस _____ को मनाया जाता है।

1. February 28 /28 फरवरी
2. May 1 / 1 मई
3. June 5 / 5 जून
4. March 7 / 7 मार्च

Correct Answer :-

- February 28 /28 फरवरी

33) Evaluation is a _____ . / मूल्यांकन एक _____ है।

1. process unrelated to instructional objectives / अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लिए असंबंधित प्रक्रिया
2. continuous process / सतत प्रक्रिया
3. Non-quantitative process / गैर-मात्रात्मक प्रक्रिया
4. Non-qualitative process / गैर-गुणात्मक प्रक्रिया

Correct Answer :-

- continuous process / सतत प्रक्रिया

34) The educational programs of NCERT are telecasted on: / एनसीईआरटी के शैक्षणिक कार्यक्रमों को _____ पर प्रसारित किया जाता है।

1. Gyan Darshan channel / ज्ञान दर्शन चैनल
2. Doordarshan National channel / दूरदर्शन नेशनल चैनल
3. Doordarshan Bharti / दूरदर्शन भारती
4. eGyankosh / ई-ज्ञानकोष

Correct Answer :-

- Gyan Darshan channel / ज्ञान दर्शन चैनल

35) Which of the following statements is not true for a constructivist teacher? / निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक रचनावादी शिक्षक के लिए सही नहीं है?

1. His/her students work mainly in groups / उनके छात्र मुख्य रूप से समूहों में कार्य करते हैं।
2. His/her role is rooted in negotiation. / उनकी भूमिका मोलभाव में निहित है।
3. He/she assesses the students through testing by checking for correct responses. / वह सही प्रतिक्रियाओं के लिए जाँच करके परीक्षण के माध्यम से छात्रों का आंकलन करते हैं।
4. He/she values the interest of students. / वह छात्रों के हित को महत्व देते हैं।

Correct Answer :-

- He/she assesses the students through testing by checking for correct responses. / वह सही प्रतिक्रियाओं के लिए जाँच करके परीक्षण के माध्यम से छात्रों का आंकलन करते हैं।

36) "Assessment of learning" does not include: / "अधिगम का आंकलन" निम्न में शामिल नहीं है:

1. Evidence based assessment/ साक्ष्य आधारित आंकलन
2. Criteria based assessment/ मानदंड आधारित आंकलन
3. Assessment of outcomes / परिणामों का आंकलन
4. Mapping students' progress/ मानचित्रण छात्रों की प्रगति

Correct Answer :-

- Mapping students' progress/ मानचित्रण छात्रों की प्रगति

37) Which of the following statements is false about the collaborative learning approach? / निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहयोगात्मक अधिगम दृष्टिकोण के बारे में गलत है?

1. Social skills of learner are developed. / शिक्षार्थी का सामाजिक कौशल विकसित होता है।
2. Emotional skills of learner are developed. / शिक्षार्थी का भावनात्मक कौशल, विकसित होता है।
3. Every student participates pro-actively in the task. / प्रत्येक छात्र, कार्य में पूरी सक्रियता से भाग लेता है।
4. Dominance of the teacher is reduced. / शिक्षक का प्रभाव कम हो जाता है।

Correct Answer :-

- Every student participates pro-actively in the task. / प्रत्येक छात्र, कार्य में पूरी सक्रियता से भाग लेता है।

38) One of the following statements is true for the process of Roasting carried out during the extraction of metals from their ores. Identify the true statement. /

निम्नलिखित में से एक कथन अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के दौरान किए गए भर्जन की प्रक्रिया के लिए सही है। उस सत्य कथन को पहचानें।

1. Roasting is used for Carbonate ores. / भर्जन का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है।
2. Roasting is not used for Sulphide ores. / भर्जन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए नहीं किया जाता है।
3. The ore is heated in the presence of air. / अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है।
4. The ore is heated in the absence of air. / अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है।

Correct Answer :-

- The ore is heated in the presence of air. / अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है।

39) If the speed of sound is 340 m/s and the echo is returned in 3.5s , then the distance of the reflecting rock from the sound source is: /

यदि एक ध्वनि की गति 340 मीटर/सेकेंड है और 3.5 सेकेंड में प्रतिध्वनि वापस आती है, तो ध्वनि स्रोत को प्रतिध्वनित करने वाले चट्टान की दूरी है:

1. 595m / 595 मीटर
2. 1190m / 1190 मीटर
3. 170m / 170मीटर
4. 955m / 955 मीटर

Correct Answer :-

- 595m / 595 मीटर

40) The unit "hertz" is the SI unit of the physical quantity: /

"हर्ट्ज" निम्न में से किस भौतिक मात्रा की मानक (एसआई) इकाई है:

1. Sound / ध्वनि
2. Frequency / आवृत्ति
3. Period / अवधि
4. Amplitude / आयाम

Correct Answer :-

- Frequency / आवृत्ति

41) A train decreases its speed from 144 km/h to 72 km/h in 4s. The acceleration of the train is: /

एक ट्रेन अपनी चाल 4 सेकेंड में 144 किमी/घंटा से 72 किमी/घंटा तक कम करती है, ट्रेन का त्वरण है:-

1. -5 m/s^2
2. 5 m/s^2
3. 10 m/s^2
4. -10 m/s^2

Correct Answer :-

- -5 m/s^2

42) A ray of light is incident on the glass slab at an angle of incidence 30° , the angle of emergence will be:/

प्रकाश की एक किरण शीशे की एक पट्टी पर 30° के आपतन कोण पर आपतित होती है, प्रकाश उद्गम बिंदु का कोण होगा:

1. 60°
2. 45°
3. 30°

4. 15°

Correct Answer :-

- 30°

43) The interval between the melting point of ice and the boiling point of water in Celsius scale is divided into: /

सेल्सियस स्केल में पानी के क्वथनांक और बर्फ के गलनांक के बीच अंतरात इसमें विभाजित होता है:

1. 180 equal parts / 180 बराबर हिस्सों
2. 273 equal parts / 273 बराबर हिस्सों
3. 100 equal parts / 100 बराबर हिस्सों
4. 120 equal parts / 120 बराबर हिस्सों

Correct Answer :-

- 100 equal parts / 100 बराबर हिस्सों

44) Use of agriculture farming system,with minimum or no use of chemicals,use of maximum input of manure,farmwastes and bioagents is known as /

न्यूनतम या बिना रसायनों के प्रयोग की कृषि प्रणाली का उपयोग, खाद के अधिकतम निवेश, कृषि अपशेष और जैव कारक का उपयोग कहलाता है

1. Genetic manipulation. / आनुवांशिक हेरफेर
2. Organic farming. / जैव कृषि
3. Biofertilizer farming. / जैवउर्वरक कृषि
4. Biochemical farming. / जैवरासायनिक कृषि

Correct Answer :-

- Organic farming. / जैव कृषि

45) CANCELLED

We feel more comfortable in light coloured cloths in summer than dark coloured cloths because: /

गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों में हम अधिक आरामदायक महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े हैं:

1. Light coloured cloths absorbs more heat radiation/ हल्के रंग के कपड़े, अधिक ऊष्म विकिरण को अवशोषित करते हैं।
2. Light coloured cloths absorbs less heat radiation / हल्के रंग के कपड़े, कम ऊष्म विकिरण को अवशोषित करते हैं।
3. Dark coloured cloths radiate more heat radiation / गहरे रंग के कपड़े अधिक ऊष्म विकिरण, विकिरित करते हैं।
4. Light coloured cloths absorbs more moisture / हल्के रंग के कपड़े अधिक नमी को अवशोषित करते हैं।

Correct Answer :-

- Light coloured cloths absorbs less heat radiation / हल्के रंग के कपड़े, कम ऊष्म विकिरण को अवशोषित करते हैं।

46) CANCELLED

What will happen if a small sheet of paper is tightly wound over at one end of a long iron rod and the same end is placed over a candle flame? /

क्या होगा अगर कागज की एक छोटी चादर, एक लंबे लोहे की छड़ के एक छोर पर कसकर बांध दी जाती है और उस छड़ के दूसरे छोर पर एक मोमबत्ती की लौ को जलाकर रखा जाता है?

1. Only some portions of the paper will burn off. /

केवल कागज के कुछ हिस्से जल जाएंगे।

2. The paper will not burn off since iron is a good conductor. /

कागज नहीं जलेगा क्योंकि आयरन एक अच्छा विसंवाहक है।

3. The paper will burn off since it is an insulator. /

कागज जल जाएगा क्योंकि यह विसंवाहक है।

4. The flame of the candle will put off. /

मोमबत्ती की लौ बुझ जाएगी।

Correct Answer :-

• The paper will not burn off since iron is a good conductor. /

कागज नहीं जलेगा क्योंकि आयरन एक अच्छा विसंवाहक है।

47) CANCELLED

Which group of organisms are not constituents of a food chain ?/

जीवों का कौन से समूह खाद्य श्रृंखला के घटक नहीं हैं?

1. Frog, snake, grass, eagle, grass hopper / मेंढक, साँप, घास, चील, टिड्डा

2. Lion, rabbit, grass, wolf / शेर, खरगोश, घास, भेड़िया

3. Snake, grass, wolf, tiger / साँप, घास, भेड़िया, बाघ

4. Man, plankton, fish, grass hopper / मानव, प्लवक, मछली, टिड्डा

Correct Answer :-

• Snake, grass, wolf, tiger / साँप, घास, भेड़िया, बाघ

48) CANCELLED

Liquids in spherical containers should be placed _____. / गोलाकार पात्रों में रखे तरल पदार्थ को _____ रखा जाना चाहिए।

1. near a water source in the lab / प्रयोगशाला में पानी के एक स्रोत के पास

2. near the window / खिड़की के समीप

3. in dark / अंधेरे में

4. in open shelves / खुली अलमारियों में


Correct Answer :-

- in dark / अंधेरे में

49) CANCELLED

A force of 10N is acting on the body and the body displaces through 5m normal to the direction of application of the force as shown in the given figure. Find the work done. /

10N का एक बल, एक निकाय पर कार्यरत है और यह दिए गए चित्र के अनुसार, बल के लागू होने की दिशा में 5 मीटर सामान्य रूप से विस्थापित होता है। कितना कार्य हुआ जात करें।



1. -50J
2. 25 J
3. 50 J
4. 0 J

Correct Answer :-

- 0 J

50) Combustible materials can be disposed off through / दहनशील पदार्थ किसके माध्यम से निपटाये जा सकते हैं

1. Composting / कम्पोस्टिंग
2. Recycling / पुनश्चक्रण
3. Dumping / सत्रिक्षेपण
4. Incineration / भस्मीकरण

Correct Answer :-

- Incineration / भस्मीकरण

51) The anhydride of H_3PO_4 is: /

H_3PO_4 का एनहाईड्राइड है:

1. PCl_3

2. PCl_5

3. PH_3

4. P_2O_5

Correct Answer :-

• P_2O_5

52) Among the following ecosystems, man made ecosystem is /

निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है:

1. Garden / बगीचा

2. Ponds / तालाब

3. Forests / जंगल

4. Lakes / झील

Correct Answer :-

• Garden / बगीचा

53) Vibro-tactile aids are used for _____ students. / विब्रो-टेक्टाइल मदद का उपयोग _____ छात्रों के लिए किया जाता है।

1. mentally ill / मानसिक रूप से बीमार

2. dumb / गूंगे

3. deaf / बहरे

4. blind / अंधे

Correct Answer :-

• deaf / बहरे

54) The statement "the electrical resistance of a metal increases with temperature" is a: / कथन: "धातु का विद्युत प्रतिरोध, तापमान के साथ बढ़ता है।" एक _____ है।

1. Concept / अवधारणा

2. Theory / सिद्धांत

3. Principle / नियम

4. Hypothesis / परिकल्पना

Correct Answer :-

• Principle / नियम

55) Herbarium is a dry preservation of _____. / हर्बेरियम _____ का एक शुष्क संरक्षण है।

1. fishes / मछलियों
2. bird feathers / पक्षी के पंखों
3. herbs / जड़ी बूटियों
4. plants / पौधों

Correct Answer :-

- plants / पौधों

56) Which one of the following is not an advantage of the Heuristic method of teaching? / निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का एक लाभ नहीं है?

1. Being a fast process, it can help to cover the prescribed syllabus in a specific time period. / एक तेज प्रक्रिया होने के नाते, यह एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता कर सकती है।
2. It helps in developing creativity in the learners / यह शिक्षार्थियों में रचनात्मकता विकसित करने में मदद करती है।
3. The students develop the power of observation. / छात्रों में अवलोकन की शक्ति विकसित होती है।
4. Self-activity is used for gaining knowledge. / ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्व-गतिविधि का उपयोग किया जाता है।

Correct Answer :-

- Being a fast process, it can help to cover the prescribed syllabus in a specific time period. / एक तेज प्रक्रिया होने के नाते, यह एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता कर सकती है।

57) Which of the following types of question should be used by a science teacher to assess the ability of a student to summarize and integrate the ideas? / निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग, एक विज्ञान शिक्षक द्वारा विचारों को संक्षेप और एकीकृत करने हेतु एक छात्र की क्षमता का आंकलन करने के लिए किया जाना चाहिए?

1. Selection type objective question / चयन वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न
2. Supply type objective question / आपूर्ति वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न
3. Short answer type question / लघु उत्तर वाले प्रश्न
4. Long answer type question / दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न

Correct Answer :-

- Long answer type question / दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न

58) Which of the following is a biotic factor?/

निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है?

1. Microbes / रोगाणु
2. water / जल
3. Soil / मिट्टी
4. Air / वायु

Correct Answer :-

- Microbes / रोगाणु

59) Perseverance is an attribute that: / दृढ़ता एक विशेषता है जो:

1. Allows repeated opportunities for success / सफलता के लिए बार-बार अवसर देती है।
2. Gives success in single attempt / एक ही प्रयास में सफलता देती है।
3. Leads to continuous success / निरंतर सफलता की ओर ले जाती है।
4. Makes one narrow minded towards work / काम के प्रति संकीर्ण सोच निर्मित करती है।

Correct Answer :-

- Allows repeated opportunities for success / सफलता के लिए बार-बार अवसर देती है।

60) Which of the following is NOT true of performance-based assessments? / निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन-आधारित आंकलन का सत्य नहीं है?

1. It measures students ability to apply the knowledge learnt / यह छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान को लागू करने की क्षमता को मापता है।
2. It is simple and non-authentic / यह सरल और गैर-प्रमाणिक है।
3. It is open-ended and time-bound / यह खुला-अंत (ओपन-एंडेड) और समय-बद्ध है।
4. It is process/product oriented/ यह प्रक्रिया / उत्पाद उन्मुख है।

Correct Answer :-

- It is simple and non-authentic / यह सरल और गैर-प्रमाणिक है।